

## प्रेस नोट दिनांक 13-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी एवं पुलिस लाइन्स परिसर का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये ।

आज दिनांक 13-01-2023 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई । सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोली वार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दिया गया । इस दौरान अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/लाइन्स, भूतनाथ गुप्ता, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर, पीआरओ पुलिस अधीक्षक चन्दन कुमार व लाइन्स के अन्य अधि0/कर्म0गण मौजूद रहें ।

इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर भी शुक्रवार की परेड करायी गयी । शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया ।

## प्रेस नोट- दिनांक 13.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन व देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 13.01.2023 को थाना स्थानीय पर थाना क्षेत्र के जन सेवा केन्द्र संचालकगण के साथ गोष्ठी आयोजित किया गया । गोष्ठी के दौरान समस्त संचालकगण से सुरक्षा संबंधित वार्ता कर आवश्यक दिशा- निर्देशों से अवगत कराया गया ।

## **प्रेस नोट दिनांक 13.01.2023 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर**

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर व अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 13.01.2023 को थाना स्थानीय पर ग्राहक सेवा केन्द्रों के संचालको के साथ थाना स्थानीय पर मीटिंग कि गयी तथा उन्हे उच्चाधिकारीगण से प्राप्त आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

### **प्रेस नोट दिनांक 13.01.2023**

**सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।**

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 143/2015 मु.अ.सं. 611/2015 धारा 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना डुमरियागंज से सम्बन्धित आरोपीगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त सुलेमान पुत्र फताउल्लाह उर्फ कल्लूहउल्लाह निवासी ग्राम परसा इन्माद थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा दोषी करार देते हुये 10 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 अशोक कन्नौजिया, थाना डुमरियागंज का सराहनीय योगदान रहा ।

## प्रेस नोट:दिनांक 13.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 13.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के आठवें दिवस पर अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में अमरेश कुमार प्रभारी यातायात मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, जोगिया,बांसी कस्बा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया एवम प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात टीम तथा ए0आर0टी0ओ0 द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया तथा वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया, जिससे कोहरे में वाहनों की दृश्यता बढ़ सके एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके,तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 25 वाहनों से 24500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

## प्रेस-नोट दिनांक 13.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्कवाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.01.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना

सिद्धार्थ नगर के उद्यान पार्क, तेतरी बाजार, रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ तिराहा, स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

### **एण्टी रोमियों टीम का विवरण-**

01- महिला उ०नि० पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।

02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर।

### **प्रेस नोट दिनांक 13-01-2023**

**महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01परिवार को बिखरने से बचाया गया।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 13-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 01परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान, म०हे०मु० सबिता सिंह, म० आ०प्रियम्बदा सिंह, म० आ० अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।-

### **निस्तारित पत्रावली का विवरण**

महिदुनिशा पत्नी आबिद अली साकिन रिठिया थाना बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर।